



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032025-261514
CG-DL-E-08032025-261514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1095]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946

No. 1095]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/PHALGUNA 16, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

का.आ. 1104(अ).—जबकि मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय, डीएलएफ साइबर पार्क, ब्लॉक बी, 9 वीं मंजिल, उद्योग विहार, फेज-III, सेक्टर 20, गुरुग्राम, हरियाणा – 122008, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “गडग, कर्नाटक में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को उसकी 470 मेगावाट हाइब्रिड (सौर: 200 मेगावाट और पवन: 270 मेगावाट) बिजली परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/1/2023-PG दिनांकित 16.11.2023 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “गडग, कर्नाटक में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को उसकी 470 मेगावाट हाइब्रिड (सौर: 200 मेगावाट और पवन: 270 मेगावाट) बिजली परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) ने स्थानीय समाचार पत्रों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 03.08.2024, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 14.08.2024, गडग वाणी (कन्नड़ में) दिनांक 04.08.2024, ए सिटीजन (कन्नड़ में) दिनांक 04.08.2024 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 19.10.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम

जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) ने 08.01.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “गडग, कर्नाटक में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को उसकी 470 मेगावाट हाइब्रिड (सौर: 200 मेगावाट और पवन: 270 मेगावाट) बिजली परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. 270 मेगावाट पवन परियोजना स्विचयार्ड (जक्कली गांव, रोम तालुक, गडग जिला, कर्नाटक) से मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड - बालागोडा गांव, रोम तालुक, गडग जिला, कर्नाटक) तक 220 केवी एस/सी लाइन
2. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड - बालागोडा गांव, रोम तालुक, गडग जिला, कर्नाटक) से गडग पीएस (आईएसटीएस सब-स्टेशन) तक 220 केवी एस/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

270 मेगावाट पवन परियोजना स्विचयार्ड (जक्कली गांव, रोम तालुक, गडग जिला, कर्नाटक) से मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड - बालागोडा गांव, रोम तालुक, गडग जिला, कर्नाटक) तक 220 केवी एस/सी लाइन				
क्रम सं.	गाँव का नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
1.	जक्कली, जिगलुर (जिगलुरा), होसाहल्ली (होसल्ली), मुगली (मुगली), कुराबन्हाल, तलिहाल (तल्लीहाला), होन्निगनूर (होन्निगानुरा), बालगोडु (बालागोडा)	रोम	गडग	कर्नाटक
2.	निदागुंडी, संतागेरी (शांतागिरी), मारनबासरी (मारानाबासरी), इटगी (इटगी)	गजेन्द्रगढ़	गडग	कर्नाटक
मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूलिंग स्टेशन (200 मेगावाट सौर परियोजनाजनरेशन स्विचयार्ड - बालागोडा गांव, रोम तालुक, गडग जिला, कर्नाटक) से गडग पीएस (आईएसटीएस सब-स्टेशन) तक 220 केवी एस/सी लाइन				
क्रम सं.	गाँव का नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
1.	बालगोडु (बालागोडा)	रोम	गडग	कर्नाटक
2.	संतागेरी (शांतागिरी), मुशिगेरी, नल्लूर (नेल्लूरा), चिगलगुंडी, कलिंगनूर (कल्लीगनुरा), रुद्रपुर (रुद्रपुरा), अमरगट्टी, गुलागुली, बोम्मसागर (बोम्मासागर)	गजेन्द्रगढ़	गडग	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्येधीन है।
- vi. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/13/2025-पीजी]

एम.वी.एन. बरा प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2025

S.O. 1104(E).—Whereas M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) having its registered address at DLF Cyber Park, Block B, 9th Floor, Udyog Vihar, Phase— III, Sector 20, Gurugram, Haryana -122008, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) for its 470 MW hybrid (Solar: 200 MW & Wind: 270 MW) power project in Gadag, Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/1/2023-PG dated 16.11.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) for its 470 MW hybrid (Solar: 200 MW & Wind: 270 MW) power project in Gadag, Karnataka”.

M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) had published notice for transmission scheme in local newspapers The New Indian Express (in English) dated 03.08.2024, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 14.08.2024, Gadag Vani (in Kannada) dated 04.08.2024, A Citizen (in Kannada) dated 04.08.2024 and in Weekly Gazette of India dated 19.10.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) has submitted an affidavit dated 08.01.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) for its 470 MW hybrid (Solar: 200 MW & Wind: 270 MW) power project in Gadag, Karnataka”. The following overhead lines are covered under this scheme:

1. 220 kV S/c line from 270 MW wind project switchyard (Jakkali village, Ron Taluk, Gadag District, Karnataka) to pooling station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Generation switchyard in Balagoda Village, Ron Taluk, Gadag District, Karnataka).
2. 220 kV S/c line from pooling station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Generation switchyard of 200 MW Solar Project in Balagoda Village, Ron Taluk, Gadag District, Karnataka) to Gadag PS (ISTS SS).

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Karnataka**:

I. 220 kV S/c line from 270 MW wind project switchyard (Jakkali village, Ron Taluk, Gadag District, Karnataka) to pooling station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Generation switchyard in Balagoda Village, Ron Taluk, Gadag District, Karnataka)				
S. No.	Name of Village	Tehsil/Taluka	District	State
1.	Jakkali, Jigalur (Jigalura), Hosahalli (Hosalli), Mugli (Mugali), Kurabahal, Talihal (Tallihala), Honniganur (Honniganura), Balgodu (Balagoda)	Ron	Gadag	Karnataka
2.	Nidagundi, Santageri (Shantagiri), Maranbasri (Maranabasari), Itgi (Itagi)	Gajendragad	Gadag	Karnataka
II. 220 kV S/c line from pooling station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Generation switchyard in Balagoda Village, Ron Taluk, Gadag District, Karnataka) to Gadag PS (ISTS SS).				
S. No.	Name of Village	Tehsil/Taluka	District	State
1.	Balgodu (Balagoda)	Ron	Gadag	Karnataka
2.	Santageri (Shantagiri), Mushigeri, Nallur (Nellura), Chigalagundi, Kalliganur (Kalliganura), Rudrapur (Rudrapura), Amaragatti, Gulaguli, Bommasagar (Bommasagara)	Gajendragad	Gadag	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/13/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)